

# Washington की राजस्व-आधारित वित्तपोषण निधि

Washington स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स (Washington State Department of Commerce) और U.S. डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेजरी (U.S. Department of Treasury) द्वारा Washington स्टेट स्मॉल बिज़नेस क्रेडिट इनीशिएटिव (SSBCI) के माध्यम से समर्थित।



Washington State  
Department of  
Commerce

## आपके बढ़ते बिज़नेस के लिए स्मार्ट वित्तपोषण।

अगर आप एक ऐसे बिज़नेस हैं जो अपनी गति से विकास करना चाहता है, तो राजस्व-आधारित वित्तपोषण निधि आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। हमारा राजस्व-आधारित वित्तपोषण पारंपरिक बैंक लोन का एक विकल्प है, जिसमें पुनर्भुगतान आपकी खास ज़रूरतों और आपके बिज़नेस की आय के अनुरूप होता है।

### राजस्व-आधारित वित्तपोषण का क्या लाभ है?

राजस्व-आधारित वित्तपोषण के पारंपरिक रूपों का भुगतान बिज़नेस के सकल राजस्व से किया जाता है। राजस्व-आधारित वित्तपोषण निधि द्वारा समर्थित वित्तपोषण अलग है, क्योंकि पुनर्भुगतान निवेश और साधारण व्यय के समायोजन के बाद बिज़नेस के राजस्व के प्रतिशत पर आधारित होता है, जो व्यवसाय को विकसित करने के लिए ज़रूरी है - जैसे कि नए उत्पादों या उपकरणों में निवेश, माल की लागत, वेतन-निधि, किराया, कर और अन्य स्वीकार्य व्यय।

### अपनी ज़रूरतों के लिए सबसे उपयुक्त वित्तपोषण विकल्प चुनें।

#### Denkyem Loan

##### बिज़नेस इकाइयों के लिए ये शर्तें हैं:

- उन्हें Washington राज्य में स्थित और व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत होना चाहिए
- उन्हें राजस्व जनरेट करना चाहिए
- उन्हें कम-से-कम 12 महीनों से बिज़नेस में होना चाहिए, 2 वर्ष से ज़्यादा होना बढ़िया है
- उन्हें एक लाभकारी संस्था होना चाहिए
- उनमें 500 या उससे कम कर्मचारी होने चाहिए

##### शर्तें:

- 3 साल की अवधि
- कार्यशील पूंजी लोन \$10,000 – \$50,000 के बीच
- इस उत्पाद का गुणक 1.10x (6.29% APR\*) है
- पुनर्भुगतान बिज़नेस के समायोजित मासिक राजस्व के 5% पर सेट किया गया है, जिसमें न्यूनतम मासिक भुगतान \$100 है



#### Ajust from Grow America

##### बिज़नेस इकाइयों के लिए ये शर्तें हैं:

- उन्हें Washington राज्य में स्थित और व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत होना चाहिए
- लोन चुकाने की क्षमता प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए
- उन्हें कम-से-कम 3 सालों से बिज़नेस में होना चाहिए
- उन्हें एक लाभकारी संस्था होना चाहिए
- उनमें 500 या उससे कम कर्मचारी होने चाहिए

##### शर्तें:

- 3 साल की अवधि
- कार्यशील पूंजी लोन \$50,001 – \$5,00,000 के बीच (अपवादों के साथ \$1M तक)
- इस उत्पाद का गुणक 1.24x (14.27% APR\*) है
- पुनर्भुगतान बिज़नेस के समायोजित मासिक राजस्व के 20% पर आधारित है, जिसमें न्यूनतम मासिक भुगतान \$1,000 है



\*APR आपके वित्तपोषण की अनुमानित लागत है जिसे वार्षिक दर के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसमें ब्याज लागत और SSBCI ग्राहक सुरक्षा दिशानिर्देशों के तहत अनुमत कोई अन्य वित्त शुल्क शामिल होता है।


# राजस्व-आधारित लोन इस प्रकार काम करता है।

कुछ साल पहले खुलने के बाद से Rebecca की फूलों की दुकान में ग्राहकों और राजस्व में वृद्धि देखी गई है। उसके पास अतिरिक्त इन्वेंट्री और स्टॉक में निवेश करके अपने बिज़नेस को और भी आगे बढ़ाने का अवसर है। Rebecca लोन लेना चाहती है, लेकिन विकास और विस्तार के चरणों के दौरान बिज़नेस के लिए एक फ़िक्स्ड भुगतान संरचना कठिन हो सकती है।


राजस्व-आधारित लोन Rebecca के लिए उपयुक्त हो सकता है। एक पारंपरिक RBF लोन के लिए Rebecca को अपने सकल राजस्व का एक हिस्सा चुकाना होगा और बिज़नेस में निवेश करने की उसकी क्षमता सीमित होगी।

Washington RBF निधि से मिला वित्तपोषण उसकी राजस्व वृद्धि के अनुकूल है और इससे वह अपने बिज़नेस में महत्वपूर्ण निवेश कर पाती है, तथा वह अपनी इन्वेंट्री को दोगुना करने और एक सहायक को नियुक्त करने में सक्षम हो पाती है। समायोजित राजस्व पर आधारित लचीले पुनर्भुगतान के साथ, वह दर्शकों की विशाल रेंज तक पहुँचने के लिए मार्केटिंग में भी निवेश कर सकती है।

## टर्म लोन



## Washington RBF निधि



## कार्यशील पूंजी निम्न पर खर्च की जा सकती है:

- उपकरण
- वेतन-निधि
- किराया और उपयोगिताएँ
- नवीनीकरण
- आपूर्तियाँ
- इन्वेंट्री
- मार्केटिंग और विज्ञापन
- और बहुत कुछ

## हमारे जानकारी वित्तीय विशेषज्ञ आपको सही राह दिखाएँगे।

वे पारंपरिक बैंकों की तरह नहीं हैं। वे सामुदायिक विकास वित्तीय संस्थान या CDFI हैं, जिनके पास छोटे बिज़नेस के साथ काम करने का वर्षों का अनुभव है। उनका वित्तीय मार्गदर्शन मददगार, पारदर्शी और सच्चा है, और वे आगे बढ़ने के सर्वोत्तम तरीके पर आपके साथ सहयोग करेंगे।

## अपने लिए सही वित्तपोषण विकल्प खोजें।



इस वेबसाइट पर जाएँ:  
**growamerica.org/rbf**  
और आज ही शुरुआत करें।

Washington राजस्व-आधारित वित्तपोषण निधि को Washington स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स और U.S. डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेजरी द्वारा Washington स्टेट स्मॉल बिज़नेस क्रेडिट इनीशिएटिव (SSBCI) के माध्यम से सपोर्ट किया जाता है। SSBCI किस तरह से कम्युनिटी डेवलपमेंट फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (CDFIs), तथा पार्टिसिपेटिंग लेंडर्स को समग्र Washington में छोटे बिज़नेस एवं गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए अतिरिक्त पूंजी प्रदान करता है, विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से कम सेवा प्राप्त और कम बैंकिंग वाले समुदायों को, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप [एजेंसी की वेबसाइट](https://www.growamerica.org/rbf) पर विज़िट कर सकते हैं।

इस प्रोजेक्ट को U.S. डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेजरी द्वारा प्रदान की गई अनुदान संख्या SSBCI-21031-0048 द्वारा समर्थित किया गया था, ध्यान रखें: स्टेट स्मॉल बिज़नेस क्रेडिट इनीशिएटिव। इस दस्तावेज़ में दिए गए दृष्टिकोण लेखक के अपने हैं और यह आवश्यक रूप से U.S. डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेजरी की आधिकारिक पोजीशन या नीतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ध्यान रखें: स्टेट स्मॉल बिज़नेस क्रेडिट इनीशिएटिव। अनुदान निधियों का प्रबंधन Washington स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स द्वारा किया जाता है।